

PCL:SEC:2023: 1968

13.02.2023

BSE Limited, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI-400 001.

Sub: Newspaper Advertisement- Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022.

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements pertaining to Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022 published on Saturday, 11th February, 2023, in Financial Express (English) and Amar Ujala (Hindi).

The above information is also available on the website of the Company i.e www.primochemicals.in

Thanking you,

Yours faithfully, For Primo Chemicals Limited (Formerly known as PUNJAB ALKALIES & CHEMICALS LIMITED)

(SUGANDHA KUKREJA)

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl: as above.

PRIMO CHEMICALS LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS PUNJAB ALKALIES & CHEMICALS LIMITED)

FINANCIAL EXPRESS

DAY 1 OF GLOBAL INVESTORS' SUMMIT

RIL, Tata, Birla commit over ₹1 trn in UP UP a major destination

FE BUREAU New Delhi, February 10

RELIANCE INDUSTRIES (RIL) CHAIRMAN Mukesh Ambani and Aditya Birla Group chairman Kumar Mangalam Birla on Friday committed investments worth ₹75,000 crore and ₹25,000 crore, respectively, in Uttar Pradesh with plans to expand their businesses in the state in the near future.

Besides, Tata Sons chairman N Chandrasekaran said group firm Air India SATS will set up an integrated multi-modal cargo hub at the upcoming Jewar airport in partnership with Zurich Airport. The announcements were made on the opening day of the three-day UP Global Investors'Summit.


Adani Group chairman Gautam Adani, currently battling allegations of market manipulation, was conspicuous in his absence at the event. He has attended similar events in UP as well as in other states in the past.

In his address, Ambani said that RIL's investment of ₹75,000 crore will be for rolling out 5G mobile telephony services, expanding retail network, and setting up renewable energy capacity over the next four years.

Similarly, Birla said his group's ₹25,000-crore investment will be across its various businesses such as cement, metals, chemicals, financial services and renewable energy.







(From left) Reliance Industries chairman Mukesh Ambani, Tata Sons chief N Chandrasekaran and Aditya Birla Group chairman Kumar Mangalam Birla attend the UP Global Investors' Summit, in Lucknow on Friday

Chandrasekaran said Air India has plans to connect every part of UP to the rest of India and potentially to important destinations of the world.

The three industry leaders said the country is on a strong growth path, emerging as a truly global champion in many sectors and the target of becoming a \$25-trillion economy, when it celebrates 100th year of Independence, is achievable.

They credited Prime Minister Narendra Modi for guiding the country with a vision and laser-sharp focus on execution towards a bold new India, and added that the Union Budget 2023-24 has laid the foundation for the country to emerge as a developed nation.

Ambani also announced a forav into the bioenergy business, converting agriculture waste into gas, which can be used as fuel in industries, run stoves. He said his

group will set up 10 gigawatt of renewable energy capacity and roll out 5G services across the state in the next 10 months. "These new investments will create an addi-

tional

100,000 jobs in the state," he said, adding the investment will be in addition to ₹50,000 crore already invested in the state.

over

Birla, in his address, said: "As an early investor in the industrial journey of the state, we feel enthused by the rapid progress

that the state is making." He said that UP can rightly be considered one of the key states, driautomobiles or light kitchen ving India's journey towards a \$5-trillion econ-

> The three industry omy. "Therefore, leaders said the we are committing further country is on a investments to the strong growth tune of ₹25,000 path, emerging crore across our as a global businesses, champion in cement, metals, many sectors chemicals, financial services and

> > he added. Birla also said the group's seven businesses have a significant presence in Uttar Pradesh, anchored by over 30,000 employees with an overall investment of ₹40,000 crore. "I am happy to say that we are

renewable energy,"

multimodal air cargo through Air India SATS with our partner Zurich Airport in the new Jewar airport," Chandrasekaran said. Air India SATS is the ground handling services arm of Air India. He said the group's hotel

going to build an integrated

business "sees tremendous opportunities in the state because of the tourism that's going to come, both religious as well as wildlife, and other aspects that attract tourists". Chandrasekaran added that the Tata group already has a significant presence in Uttar Pradesh through steel, automotive, retail, financial and power firms along with TCS. "Eighteen companies of Tata group are deeply present (in UP)," he said, adding that 50,000 people are employed.

for FDI in India, says PM

FE BUREAU New Delhi, February 10

PRIME MINISTER Narendra Modi on Friday said India's rapid growth is a critical driver of world prosperity now, and pitched Uttar Pradesh as a major destination for foreign investment in the country.

"If India is a bright spot for the world, it is Uttar Pradesh which is driving the growth of India," he said at the inaugural session of the three-day Uttar Pradesh Global Investors Summit in Lucknow.

The Prime Minister said India now is driven by an aspirational society.

"Today, the aspirations of the society of India are giving a push to the governments. And, these aspirations are also bringing speed to developmental work. Today, India is carrying out reforms not out of compulsion but out of conviction.

Modi said Uttar Pradesh was once known as a "BIMARU" state, referring to an acronym for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. "BIMARU" also means sick in Hindi.



in Lucknow. (From left) UP governor Anandiben Patel, defence minister Rajnath Singh and CM Yogi Adityanath are also seen PTI

But the state now inspires hope."Within five or six years, UP has established a new identity for itself," he said, indirectly referring to this period under a BJP government in the state.

"Now, UP is being identified by good governance. Now, UP is being identified by better law and order, peace and stability. Now, wealth creators here will get new opportunities," Modi said.

Uttar Pradesh, with its ambitious plan to raise its gross state domestic product

to \$1 trillion, is aggressively seeking private investments to boost aggregate demand in the state.

The state's focus is propping up both consumption and investment demand, and upgrading the physical infrastructure to attract investors

 both domestic and foreign Defence minister Rajnath Singh, Uttar Pradesh governor Anandiben Patel and chief minister Yogi Adityanath were also present at the launch of the summit.

—With inputs from PTI

Techies may soon be able to renew H-1B visas within US

LALIT K JHA Washington, February 10

THE US IS planning to resume the process of domestic visa revalidation in certain categories, like H-1B and L1 visas, on a pilot basis later this year, a move that will benefit tens of thousands of foreign techworkers, particularly from India.

Until 2004, certain categories of non-immigrant visas, particularly the H-1B, could be renewed or stamped inside the US.Afterthat, for the renewal of these visas, in particular, those on H-1B, the foreign tech workers have to go out of the country, mostly to their own country to get the H-1B extension stamped on their passport.

The pilot project when fully implemented will benefit professionals to get the stamping done with the US.

For all the H-1B visa holders, when their visa is renewed, they need to get their passports stamped with renewal dates. This is required if they wish to travel outside of the US and reenter. As of now, H-1B visa restamping is not allowed within the US. This was a big inconvenience for foreign guest workers and also for their employees, particularly at a time when the visa wait time is more than 800 days or more than two years.

The much-sought-after H-1B visas are issued for three years at a time. The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in speciality occupations that require theoretical or technical expertise. Technology companies depend on it to hire tens of thousands of employees each year from countries like India and China.

THE **sukhjit** <u>Starch & Chemicals Limited</u>

Regd. Office: Sarai Road, Phagwara-144401 CIN: L15321PB1944PLC001925 E-mail: sukhjit@sukhjitgroup.com Website: www.sukhjitgroup.com Ph. 01824-468800

| EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/ NINE MONTHS ENDED 31** DECEMBER, 2022 (in Rs. Crores) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--------------------|--|--|--|
| Particulars | Standalone for Three Months ended 31.12.2022 (Unaudited) | Standalone For Corresponding Three Months (in the prev. year) ended 31.12.2021 (Unaudited) | Standalone for Nine Months ended 31.12.2022 (Unaudited) | Standalone For Corresponding Nine Months (in the prev. year) ended 31.12.2021 (Unaudited) | Consolidated For Three Months ended 31.12.2022 (Unaudited) | Consolidated for Corresponding Three Months (in the prev. year) ended 31.12.2021 (Unaudited) | For Nine Months | Consolidated for Corresponding Nine Months (in the prev. year) ended 31.12.2022 (Unaudited) | | |
| Total Income/Revenue from Operations (Net of Discounts) | 340.13 | 315.27 | 1045.29 | 805.79 | 347.73 | 319.33 | 1057.46 | 809.04 | | |
| Net Profit for the period before Tax (before/ after exceptional items) | 20.28 | 32.88 | 71.95 | 71.15 | 17.55 | 31.28 | 64.57 | 66.63 | | |
| Net Profit for the period after Tax (before/ after exceptional items) | 15.58 | 25.13 | 54.45 | 54.65 | 13.35 | 23.53 | 48.57 | 50.13 | | |
| Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after Tax and other Comprehensive Income (OCI) after Tax) | 16.52 | 25.06 | 55.79 | 54.11 | 14.29 | 23.46 | 49.91 | 49.59 | | |
| 5) Paid up Equity Share Capital | 15.62 | 14.76 | 15.62 | 14.76 | 15.62 | 14.76 | 15.62 | 14.76 | | |
| 6) Earning Per Share in Rs. (face value of Rs.10 each) - Basic | 9.97 | 17.03 | 34.86 | 37.03 | 8.55 | 15.94 | 31.09 | 33.96 | | |
| 7) Earning Per Share in Rs. (face value of Rs.10 each) - Diluted (*) | 9.97 | 16.86 | 34.86 | 36.91 | 8.55 | 15.79 | 31.09 | 33.85 | | |

(*) EPS for the corresponding Qtr/ Nine Months of the Previous Year (i.e. Qtr/Nine Months ended 31.12.2021) is not comparable as the EPS of the current Qtr/ Nine Months appears on the Increased Capital Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Nine Months unaudited Financial Results prepared under Ind AS and filed with the Stock exchange on 10th February, 2023, under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / Nine Months financial results is available on the Stock exchange website of BSE at www.bseindia.com and also on Company's website at www.sukhjitgroup.com. Dated: 10" February, 2023 (K.K. Sardana) Place : Phagwara Managing Director

IndusInd Bank (3)

FINANCIAL RESTRUCTURING & RECONSTRUCTION GROUP, 11th Floor, Hyatt Regency Complex, New Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Act, 2002 ("the Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower / Mortgagors Guarantors in particular that the Authorised Officer of IndusInd Bank Limited had taken Symbolic Possession of the following property(ies) mentioned pursuant to demand raised vide notice issued under Section 13(2) of the Act in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property(ies). The sale of the below mentioner properties shall be conducted by way of E-auctions through web portal: https://sarfaesi.auctiontiger.net

| | Name Name of of the Mortgagors & Account Guarantors | Details of property | Total Liabilities: | EMD Bid increase amount | Date & time of E-Auction | of Bid Submission |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | | All property i.e. constructed on Plot No. 175-G, measuring 400 sq. | | | 21.03.2023 | 20.03.2023 |
| 1 | Mr. Kanwarjit Singh | yards, bearing municipal No B-XXXV-7/175-G situated in Bhai | Crore Six Lacs Seventy | Rs. 40,40,000/- | From | up to |
| 1 | Mr Ajay Pal Singh | Randhir Singh Nagar, Ludhiana and comprised of Khata No. | thousand Three hundred ninety | | 12.00 Noon | |
| 1 | Mrs Manveen kaur | 228/305, Khasara no 42//19/1 as entered in Jamabandi for the years | three Only) as on 30/11/2018 | Rs. 1,00,000/- | to 1.00 P.M. | 05.00 PM |
| 1 | M/s Still Fashions Pvt. | 2001-2002 of Village Sunet Hadbast No. 159, Tehsil & District Ludh | niana. Bounded as under: East- P | lot No. 174-G, West- P | ot No. 176-G, No | orth- Road 45' |
| 1 | Ltd | wide, South- Plot No. 142-G. | | , | , | |

Name and contact details of Authorised Officer- Mr. Nitin Mahajan, Mobile No. 9717375920, E-mail ID:- Nitin.Mahajan@indusind.com

Terms & Conditions: A. The properties shall be sold on "as is where is, as is what is basis, whatever there is and No Recourse Basis. The Property will be sold on Symbolic Possessio Basis and the Secured Creditor shall not be responsible for handing over the Physical Possession to the Successful Bidder. B. All Offers shall be made by downloading Bid Documen from the website of https://sarfaesi.auctiontiger.net. C. The bid shall be submitted online on the portal https://sarfaesi.auctiontiger.net in the prescribed format by 20 March, 2023 upto 5.00 P.M. i.e. (Last date and time for submission of bids). D. EMD shall be deposited by way of Demand Draft (Beneficiary - Sundry A/c Asset Mgt.) payable at Par. E. Last date for submission of bids along with EMD is 20 March, 2023 upto 5 P.M. The bids without EMD amount and or/less than the reserve price shall be disqualified. F. The online auction at the portal https://sarfaesi.auctiontiger.net will commence at 12.00 p.m. on 21 March, 2023. G. There are no known encumbrances on the immovable properties known to the secured creditor. H. Interested parties are advised to independently verify the area of land, building and other details. Secured Creditor does not take any responsibility for any errors / omissions / discrepancy / shortfall etc. in the Secured Asset or for procuring any permission, etc. or for the dues of any authority established by law. I. The Online Portal allows the bidder/s to increase the bid by Rs 1,00,000/-. The highest bidder amongst them after Inter-Se Bidding shall be declared as successful bidder. J. Sale shall be subject to confirmation by the secured creditor. K. The successful bidder will have to deposit 25% of the total bid amount/purchase consideration (after adjusting amount of EMD) immediately upon acceptance of bid i.e. on the same day but not later than the next working day and balance 75% of the bid amount/purchase within 15 days of confirmation of the sale of immovable properties or such extended period as may be agreed upon by the purchaser, the secured creditor, in any case not exceeding 3 (three) months. L. In case the successful bidder fails to pay the balance sale price as stated above, all deposits including EMD shall be forfeited without any notice by Bank to the said successful bidder and the properties shall be resold. M. The EMD of unsuccessful bidder will be returned within 05 working days of closure of the auction sale proceedings. No interest shall be paid on EMD refunded. N. The purchaser shall bear the stamp duty and charges, including those of sale certificate registration charges, all statutory dues payable to government, taxes and rates, outgoing both existing and future related to the properties. O. Authorised Officer of IndusInd Bank Limited reserves the right to postpone/cancel the auction without assigning any reason thereof. P. For further details, Mr Nitin Mahajan, Authorised Officer of the IndusInd Bank Limited (Mobile No. 9717375920) may be contacted during office hours on any working day. STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The borrower / guarantors /mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, falling which the property will be auctioned / sold and balance due, if any, will be recovered with interest and cost. Date: 11.02.2023 Place: New Delhi Authorised Officer, IndusInd Bank Ltd.

PRIMO CHEMICALS LTD PRIMO (Formerly known as Punjab Alkalies & Chemicals Ltd. CIN: L24119CH1975PLC003607 Regd. Office: SCO 125-127, Sector 17-B, CHANDIGARH 160 017 Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2022 CONSOLIDATED Quarter Ended Quarter Ended Quarter Ended Nine Months **Particulars** Nine Months Nine Months Financial Quarter Ended Quarter Ended Quarter Ended Nine Months Financial Year 30.09.2022 31.12.2021 Ended Ended 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 Ended Ended 31.12.2022 Year Ended (Unaudited) 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Audited) (Audited) 45,406.79 Total Income from operations (Net) 18,764.29 18,567.00 13,070.09 55,957.72 29,299.55 45,406.79 18,764.29 18,567.00 13,070.09 55,957.72 29,299.55 890.56 1,879.86 1,879.86 1,515.40 475.00 1,515.40 890.56 511.04 1,028.02 Other Income 511.04 1,028.02 475.00 Total Income 19,239.29 19,457.56 13,581.13 57,837.58 30,327.57 46,922.19 19,239.29 19,457.56 13,581.13 57,837.58 30,327.57 46,922.19 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 4,157.97 7,553.50 4,157.97 5,577.48 5,418.61 16,140.41 2.234.85 7,553.50 5,577.48 5,418.61 16,140.41 2,234.85 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptiona 16,140.41 16,140.41 4,157.97 5,418.61 2,234.85 7,553.50 4,157.97 5,418.61 2,234.85 7,553.50 and/or Extraordinary items) 5,577.48 5,577.48 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional 5,672.13 2,915.00 1,457.12 and/or Extraordinary items) 4,051.5 4,295.29 11,651.32 1,457.12 5,672.13 2,915.00 4.051.51 4,295.29 11,651.32 Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) and other comprehensive income (after tax) 2,938.77 3,969.85 4,283.23 11,559.59 4,282.7 11,887.88 6,220.00 1,835.68 5,971.02 3,026.79 4,095.15 Paid up Equity Shares Capital 4.846.86 4,846.86 4.846.86 4.846.86 4,846.86 4.846.86 4,846.86 4,846.86 4.846.86 4,846.86 4,846.86 4.846.86 Face Value (In Rs.) Rs.2/-Rs.2/-Rs.10/-Rs.2/-Rs.10/-Rs.2/-Rs.2/-Rs.10/-Rs.2/-Rs.10/-Rs.2/-10 Reserves excluding Revaluation Reserves 18,960.89 19,209.87 Earnings/(Loss) per Share (Rs.) (Not Annualised): a) Basic 1.20 4.81 1.24 4.94 2.61 1.67 8.86 3.29 2.50 1.72 8.86 3.29 1.24 b) Diluted 1.20 1.67 8.86 4.81 3.29 2.50 1.72 8.86 4.94 3.29 2.61 Notes: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board in its meeting held on 10th February, 2023. 2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2022, is available on the BSE Limited's Website i.e. www.bseindia.com and Company's Website i.e. www.primochemicals.in. 3. The figures of the previous period have been regrouped/reclassified, wherever necessary. For and on behalf of the Board Place: Chandigarh Date: February 10, 2023

Place: Rupana Date: 10.02.2023 (Naveen Chopra) Managing Director

Regional Office
Mehdawal Road , Sant Kabir Nagar (Khalilabad) - 272175
Mob.: 9451113963, E-Mail: ROKLBD@barodauprrb.co.in **Regional Office**

POSSESSION NOTICE (for Immovable Properties)

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the Baroda U P Bank under the Securitization and Reconstruction of financial Assets and enforcement of Security interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security interest (Enforcement) Rule 2002 issued Demand Notice calling upon the under mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice with further interest, expenses and other charges etc. there on within 60

The Borrowers/Guarantors/Mortgagors/Legal Heirs having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors/Legal Heirs and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with Rule 8 of the said rules, The Borrowers/Guarantors/Mortgagors/Legal Heirs in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with properties and any dealings with the property will be subject to charge of the Baroda U.P. Bank of amount mentioned in the notice with further interest, expenses and other charges thereon, The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the act in respect of time available to redeem the secured assets.

| SI. No. | Name of the Borrowers/Legal Heirs Demand Notice Date / Possession Date/Branch | Detail of Property / Name of the owner/ Type of Possession | Outstanding Amount (Rs.) | |
|------------|--|--|--|--|
| | Indradev Rai Vill- Balushasan, Po- Baghauli, Distt- Sant Kabir Nagar - 272175 Guarantor/s: (1) Mr. Satya Prakash Rai S/o Indradev Rai Vill- Balushasan, Po- Baghauli, Distt- Sant Kabir Nagar - | All that part and parcel of immovable property consisting Land & Building admeasuring Land Aavadi No. 567 Ka Min. Area 380 Sq. Mtr. Situated at Vill- Balushasan, Tappa — Utraval, Pargana- Maghar Purab, Tehsil-Khalilabad, Distt- Santkabir Nagar standing in the name of Smt. Durgawati Rai W/o Indra Dev Rai R/O Vill. Tappa— Utraval, Pargana-Maghar Purab, Tehsil-Khalilabad, Distt-Santkabir Nagar (sale deed dated-23.11.2015) Boundaries (As Per Deed): North- H/O Jhinku Yadav, South- Khadanja Road after house, East- Land & Mandir, West-L/O Prakash Rai & others Type of Possession: Symbolic | Rs. 7,47,559.00 as on 20.08.2022 and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses | |

SBESTOS LIMITED Regd. Office: P.O. Mohanlalganj, Distt., Lucknow-226301 CIN: L26942UP1973PLC003743 Web: www.upal.in, E-mail : upasbestos@upasbestos.com, Tel.: +91 7897885557/58

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31/12/2022 [See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (Rs. In Lakhs) Previous

Quarter Ended Nine Months ended Year ende **Particulars** 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 (Unaudited) Unaudited) Unaudited) Unaudited) Unaudited (Audited) 5,832 4,705 14,605 15,980 19,771 Total Income from Operations 4,158 79 191 476 438 580 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 191 476 438 Net Profit / (Loss) for the period before tax 79 54 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 152 369 427 Net Profit / (Loss) for the period after tax 49 97 (after Exceptional and/or Extraordinary items 49 152 427 441 Total Comprehensive Income for the period 369 [Comprising Profit / (Loss) for the Period (after Tax) and other Comprehensive

912

0.54

912

1.67

912

1.07

912

4.05

912

4.68

Managing Director

4,780

4.86

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of the Financial results for the Quarter and Nine Months ended on 31st December 2022, filed with Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Lisiting Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full Quarter and Nine Months financial results are available at www.upal.in and www.msei.in (2) The above results were reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on 10th February 2023. (3) This statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. (4) Previous year figures have been regrouped/ restated where necessary. By order of the Board Place: Lucknow

SATIA INDUSTRIES LIMITED Regd office: Vill. Rupana, Malout-Muktsar Road, Sri Muktsar Sahib (152032) Punjal CIN: L21012PB1980PLC004329 • Website: www.satiagroup.com

| Sr. | Particulars | Quarte | Ended | Nine Moi | Year Ended | | |
|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|
| No. | T ut tieuturs | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.03.2022 | | |
| 1 | Total Income from Operations | 48,929.64 | 22,798.29 | 1,37,437.16 | 61,312.68 | 91,675.18 | |
| 2 | Net Profit for the period before tax(before Exceptional and/or Extraordinary items) | 7,329.25 | 3,373.33 | 16,684.05 | 8,732.40 | 12,266.88 | |
| 3 | Net Profit for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) | 7,329.25 | 3,373.33 | 16,684.05 | 8,732.40 | 12,266.88 | |
| 4 | Net Profit for the period after tax(after tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 6,483.80 | 2,893.29 | 14,589.39 | 7,111.26 | 10,067.44 | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 6,483.26 | 2,924.84 | 14,587.76 | 7,158.59 | 10,065.27 | |
| 6 | Equity Share Capital | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per balance sheet of previous year | | | | | 53,499.80 | |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - | 6.40 | • 00 | 44.50 | | 10.07 | |
| | Basic : Diluted : | 6.48 6.48 | 2.89 2.89 | 14.59 14.59 | 7.11 7.11 | 10.07 10.07 | |

Income (after Tax)]

Paid Up Equity Share Capital

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

Basic and Diluted *not annualized

1. The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Quarterly Financial Results are available on the company's website i.e. www.satiagroup.com and the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.

The above results were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 10th Feb, 2023 and thereafter have been adopted by the Board at its meeting held on 10th Feb 2023. These Results have been subject to Limited Review by the Statuary Auditors. The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133

of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder. The Board of Directors have declared an interim dividend of Rs 0.20/- per equity share (20%) of Rs 1/- each. The record date

fixed for the purpose of determining the entitlement is 24th February, 2023.

For Satia Industries Ltd (R.K. Bhandari) **Joint Managing Director** DIN: 00732588

financialexp.ep. in

Chandigarh

जालंधर। महानगर में दमोरिया पुल के पास वीरवार देर रात घर लौट रहे युवक को महज 300 रुपये लूटने का विरोध करने पर दो नशेड़ी युवकों ने चाकू से हमला कर मौत

के घाट उतार दिया। मृतक प्रवीण शुक्ल (39) के चचेरे भाई लल्लू

यादव ने बताया प्रवीण शुक्ला का उत्तर प्रदेश फाइल फोटो। के गोंडा जिले से

चाचा दयाराम शुक्ला के साथ वीरवार रात करीब 10:50 पर जालंधर पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने 10 मिनट वहां पर आराम किया और फिर वहां से पटेल चौक की और पैदल ही निकल पड़े।

रात 11: 10 बजे जब दोमोरिया पल के नजदीक पहुंचे तो अचानक तेज धार हथियार लिए दो युवकों ने उन्हें घेर लिया। पहले उनसे नशा (अफीम-गांजा) की मांग करने लगे,

ट्यूज डायरी

विरासती जगहों की जानकारी देंगे क्यूआर कोड

पटियाला। पटियाला हॅरिटेज फेस्टिक्ल-2023 के तहत जिला प्रशासन और पटियाला फाउंडेशन की ओर से रविवार सुबह 9 वजे शाही समाधां से हेरिता वर्षक निकाली जाएगी। इसके गिर्ण विरासती स्थानों की सैर करवाई जाएगी। शाही समाधां से लेकर किला मुखाक तक सारी अहम जगहों पर नगर निगम ने क्यूआर कोड वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं। ब्यूरो

शिअद और यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा में शामिल

चंडीगढ़। प्रदेश भाजपा मुख्यालय चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिरोमणि अकाली दल (बादल) के प्रदेश उपाध्यक्ष और यूथ विंग के प्रदेश

उपाध्यक्ष अपने समर्थकों सहित भाजपा परिवार में शामिल हो गए। व्यरो

अनुकंपा आधार पर नौकरी के मामले निपटाने के निर्देश

उन्तुष्टभा जातार पर नाकरा का नामा निपदान के निपरा चंडीगढ़। पंजा ने शुक्रवार को सिवित सर्विवालय स्थित अपने कार्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। क्लकं संदीप सिंह को बाल विकास मंत्री उद्दें। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। क्लकं संदीप सिंह को बाल विकास प्रोजेक्ट अन्यस्त कार्यालय अलालाबाद और संवादर गुरांत सिंह को लिला सामाजिक सुरक्षा अधिकता कार्यालय फिजेयुए में तैनात किया गया है। डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि विभाग में अनुकंपा के आधार पर लंबित मामलों को तुरंत निपटाया जाए। ब्यूरो

भूजल के लिए उपभोक्ता स्वयं लगा सकेंगे मीटर

र चेडीगढ़। पंजाब में भूजल के इस्तेमाल के लिए उपभोक्ता स्वयं मीटर लगा सकेंगे। प्रतिमाह 1500 क्यूबिक मीटर से कम भूजल की रीडिंग मैकेनिकल मीटर से होगी, जबकि इससे ऊपर उपभोक्ताओं को टेलीमेट्री

निवानिकार नाटर के हारी, जबान करना उनर उन्हें निवाहित के साथ डिजिटल वाटर मेरिटर लगवाना होगा। खास यह है कि मीटर रीडिंग पंजाब वाटर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अर्थारिटी (पीडब्ल्युआरडी) के ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट की जा सकेगी। इससे जहां प्राधिक्रण का

काम आसान होगा वहीं, उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। गौर हो कि पंजाब जल नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीते 1 फरवरी से राज्य में भूजल दोहन की नई नीति को लागू किया है। ब्यूरो

चंडीगढ़। भाजपा किसान मोर्चा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह नैनीवाल ने प्रदेश की नई टीम की घोषणा कर दी हैं। भाजपा किसान मोर्चा की प्रादेशिक टीम के उपाध्यक्ष के पर पर जुगाजत सिंह, जसपाल सिंह भी, निंदर पाल सिंह, गुरशंट सिंह, पूर्व विधायक सल्कार कोर गहरी, सतनाम सिंह बिट्टा और हरपाल

ु सिंह को नियुक्त किया गया है। वहीं, महासचिव के पद की जिम्मेदारी सतिंदर सिंह माकोवाल, पलविंदर सिंह और बोहड़ सिंह गिल को सौंपी है। ब्यूरो

भारत-पाकिस्तान सीमा पर संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार तरनतारन। तरनतारन के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ

दारा संदिग्ध भारतीय नागरिक को कंडियाली तार के नजटीक हिरासत में

सतिंदर, पलविंदर और बोहड सिंह बने महासचिव

पटेल चौक से पैदल घर जा रहे थे प्रवीण, कल्लू और चाचा दयाराम शुक्ला

लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम नशा नहीं करते. इस पर बैग छीन लिए। प्रवीण शुक्ला के पास 300 रुपये थे, जो लुटेरों ने लूट लिए। इसके बाद चाचा दयाराम और उसे थपड़ मारते हुए नीचे गिरा दिया। इसके बाद प्रवीण शुक्ला की तरफ बढ़े तो उसने लुटेरों से बचकर भागने की कोशिश की, तब लुटेरों में से एक ने तेजधार चाकू उसके पेट में घोंप दिया। जिसके बाद उन्होंने डर के मारे के रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही एक गाडी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रोककर कार चालक सहित 6-7 लोग जैसे ही नीचे उतरे तो लुटेरे भागने लगे। जिसके बाद कार सवार युवकों ने एंबुलेंस को फोन किया, जो 15 मिनट बाद पहुंची, प्रवीण को तुरंत् अस्पताल्

ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पलिस ने व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप

डेयरी एवं करियाना दुकान पर बुजुर्ग की हत्या, खून से लथपथ मिला राव

लंबी (मुक्तसर)। लंबी के गांव खेमाखेड़ा में डेयरी एवं करियाना की दुकान में सो रहे बुजुर्ग की हत्या का

आया है। यह हत्या चोरी के चलते की क्योंकि दुकान में दूध चेक करने सहित करियाना

मंगला राम का फाइल फोटो।

हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु जानकारी अनुसार गांव खेमाखेडा में

का सामान चोरी

मंगला राम नामक व्यक्ति की डेयरी व करियाना की दुकान है। वीरवार रात के समय मंगला राम दुकान के अंदर पीछे दिया है। वहीं थाना तीन के प्रभारी कमलजीत सिंह से बात की तो

उन्होंने बताया कि रात के समय दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इन युवकों ने लूट के इरादे वाली साइड में ही सोता था। पुलिस को दिए क्यान में मृतक के केटे दविंदर सिंह ने क्ताया है कि वीखार की देर रात कुछ अज्ञात लोग दुकान में घुसे और दुकान सो रहे उसके पिता के सिर पर हथीड़े जैसी किसी भारी चीज से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद वे लोग दुकान से दूध चेक करने वाली मशीन सहित दुकान के अंदर पड़ा करियाना व अन्य सामान चोरी

थाना लंबी के प्रभारी मनिंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिवार को पता सुबह उस समय चला जब वे दुकान पर आए और बिस्तर पर बुजुर्ग के शव को खून से लथपथ देखा। सूचना मिलते ही वे भी तुरंत मौके पर टीम सहित पहुंचे और श्व को कब्जे

से प्रवासी लोगों को घेर लिया था। जिसके बाद जब प्रवीण ने बचाव करना चाहा तो उस पर चाकू से वार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

में लेकर जांच शुरू कर दी है। संवाद

GIVIII TITILITY GAN के पास से शव मिला

बिठंडा। शुक्रवार को 22 वर्षीय एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव बठिंडा-सिरसा रेलवे फाटक की रेलवे लाइन के पास से बरामद हुआ है। आशंका है कि युवती की मौत भी नशे की ओवरडोज से हुई हैं। मृतका चिट्टे का नशा करने के आदी थी और उसकी दोनों बाजुओं पर टीके के कई निशान हैं। इतना ही नहीं मृतक युवती पर थाना कैनाल कॉलोनी में नशा तस्करी का भी केस दर्ज था और कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से आई थी। घटना की सूचना मिलने पर सहारा

जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के सदस्य विक्की कुमार, हरबंस सिंह, राजिंदर कुमार के अलावा थाना जीआरपी की पलिस टीम भी मौके पर पहुंची। जीआरपी के एएसआई गुरपाल सिंह ने घटनास्थल का जांच की। वहीं युवती के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। प्रथम साक्ष्य में प्रतीत होता है लड़की की मृत्यु चिट्टे के इंजेक्शन की ओवरडोज के कारण हुई। सहारा टीम के आसपास से निरीक्षण करवाने पर मृतका की शिनाख्त 22 वर्षीय कलविंदर कौर गली नंबर 4 नरूआना रोड अमरपुरा बस्ती बठिंडा के तौर पर हई। जीआरपी ने शव परिजनों को

लोग कैनियों में भर ले गए

नंगल। पंजाब और पंजाबियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें एक बाद फिर से श्री आंनदपुर साहिब गढ़शंकर मुख्य मार्ग पर स्थित झज चौक से सामने आई है। यहां वीरवार देर शाम डीजल से भरा ट्रक पलटा और लोगों में इसे . बाल्टियों में भरकर ले जाने की होड सी मच गई। मिली जानकारी अनुसार डीजल से भरा यह टैंकर अंबाला से हिमाचल के ऊना जा रहा था कि झज चौक के निकट पहुंचते ही टैंकर चालक रमजान टैंकर से संतुलन खो बैठा और तीखा मोड़ होने के कारण टैंकर पलट गया।

हालांकि इस टैंकर को सीधा तो करवा दिया गया लेकिन इस दौरान काफी लोग डीजल को बाल्टियों में भरकर ले गए। बता दें कि इससे पहले भी सेब की पेटियों से भरा ट्रक पलटा था और लोग सेव की पेटियां उठा ले गए थे तब उक्त ट्रक के चालक ने सेब की पेटियों को उठा ले जाने वाले पंजाबियों को कोसते हुए कहा था कि इस तरह की हरकतें पंजाब में नहीं बिहार में हुआ करती थी। तब समाजसेवी आगे आए थे जिन्होंने उक्त ट्रक चालक के नुकसान की

अंबाला से ऊना जा रहा था टैंकर, नंगल में हुआ हादसा



नंगल में गिरे टैंकर से तेल भरता एक व्यक्ति।

दविंदर बंबीहा गैंग के दो शातिर हथियारों के साथ किए गिरफ्तार

बड़ी वारदात की फिराक में थे, अंबाला की तरफ से हथियार लाते हुए किया काबू

पटियाला। विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के इशारों पर काम कर रहे खतरनाक दविंदर बंबीहा गिरोह के दो सदस्यों को पटियाला पुलिस ने पांच पिस्टलों और 20 कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी तेजिंदर सिंह उर्फ गुल्लू (26) गांव अब्रुवाल निवासी जिला लुधियाना को पुलिस की ओर से चलाए एक विशेष आपरेशन के तहत नेशनल हाईवे शंभू से गिरफ्तार किया गया है, जबिक इसके साथी अमरीक सिंह उर्फ शेरू उर्फ मान (32) निवासी गांव जैमलवाला जिला मोगा को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट जेल से गिरफ्तार किया गया है।

एसएसपी वरुण शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी तेजिंदर सिंह उर्फ गुल्लू विदेश में बैठे कछ भगोडे गैंगस्टरों के साथ-साथ ु फरीदकोट जेल में बैठे बंबीहा गैंग के ही अपने साथी अमरीक सिंह उर्फ शेरू के साथ भी संपर्क में है।

पुलिस को जानकारी मिली कि तेजिंदर सिंह व अमरीक सिंह के खिलाफ कई संगीन जुमों के तहत विभिन्न थानों में मकदमें दर्ज हैं और अब तेजिंदर सिंह विदेश में बैठे दो

बंबीहा गिरोह से बरामद हथियार दिखाते एसएसपी व अन्य । अनर उनान

तरफ से हथियार लेकर आ रहा है. जिन्हें आगे पंजाब में बड़ी वारदातें करने में इस्तेमाल किया जाना है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत सक्रिय होते हुए बंबीहा गैंग तेजिंदर सिंह उर्फ गुल्लू को नेशनल हाईवे शंभू से गिरफ्तार कर लिया। मौके पर उसके पास से 32 बोर के तीन पिस्टल बरामद हुए। बाद में पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर दो और पिस्टल समेत 20 कारतूस बरामद किए गए।

आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वरामद पिस्टल फरीदकोट जेल में बंद खतरनाक अपराधी अमरीक सिंह ने मंगवाए थे। इसके बाद पटियाला पुलिस ने उसे भी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से जेल में इस्तेमाल किए जा रहे दो मोबाइल भी पटियाला पुलिस ने बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि अमरीक सिंह

अमरीक सिंह के खिलाफ दर्ज हैं करीब 10 केस एसएसपी ने बताया कि आरोपी

अमरीक सिंह के खिलाफ कल्ल, लूटपाट और फिरौती मांगने के करीब 10 मुकदमें दर्ज हैं। साल 2017 से वह जेल में बंद है। अमरीक सिंह के जेल में बंद एक नामी गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड़ाढा से भी संबंध हैं। तेजिंदर सिंह के खिलाफ भी थाना सदर जगरांव में डकैती के आरोप में मुकदमा दर्ज है। गौरव पटियाल के खिलाफ भी कई संगीन जुमों के तहत मुकदमें दर्ज हैं। जैकपाल सिंह के खिलाफ भी मोगा में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों गैंग के सदस्यों का पुलिस रिमांड लेकर इनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है, जिसमें और अहम खुलासे होने की संभावना है।

अरमीनिया में बैठे गैंगस्टर गौरव पटियाला उर्फ लक्की उर्फ सौरव ठाकुर निवासी न्यू कॉलोनी खुडा लाहौरा थाना धनास (यूटी) चंडीगढ और हाल ही में मनीला में रह रहे गैंगस्टर जैकपाल सिंह उर्फ लाली निवासी कोठो पती महबत जिला मोगा के साथ संपर्क में था। इन गैंगस्टरों ने ही अमरीक सिंह को हथियारों का प्रबंध करने के लिए कहा था। व्यूरो

आतंकी लंडा से जुड़े लूटपाट और रंगदारी मांगने वाले चार गुर्गे काबू

जालंधर। जालंधर देहात पुलिस ने लूटपाट व रंगदारी मांगने वाले गैंग चार गर्गों को काब किया है जिनके तार आतंकी लंडा से जडे हुए थे। इनके सरगना विजय पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं और अक्तूबर 2022 में जालंधर के गए हैं, जो मध्य प्रदेश से खरीदकर में जांच के लिए भेजी जा रही है। एसएसपी स्वर्णदीप सिंह व डीएसपी करतारपुर सुरिंदर धोगडी लंडा के साथी विजय पर दर्ज हैं 19 मामले, मध्य प्रदेश से

रिवाल्वर व एक कटटा बरामद किया है। इनका सरगना विजय कुमार निवासी करतारपुर था। इसके अलावा उसके . अमनदीप पटवारी पर मारपीट के दो मामले दर्ज हैं जिसमें एक मामला हिमाचल से बिलासपुर 2018 में मारपीट व धमकियां देने का दर्ज किया गया था। तीसरे आरोपी सूरज सिंह निवासी बावा खेल जालंधर पर तीन मामले दर्ज हैं, जिनमें दो नाजायज हथियारों के हैं. जबकि चौथे आरोपी राहल पर नशा व नाजायज हथियार का

पलिस का दावा है कि अमनदीप पटवारी व विजय कुमार ने ही मिलकर गांव गाजी गडाना ढिलवां कपूरथला में लखविंदर सिंह का अपहरण कर 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। दोनों आरोपी कपूरथला पुलिस की राडार पर थे

पुलिस की तरफ से दो मोटरसाइकिल भी आरोपियों के पास से बरामद किए गए जिनका इस्तेमाल लूटपाट के लिए जाता था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी विजय व पलिस द्वारा मठभेड के बाद 31 अक्तूबर को गिरफ्तार किए गए बर्खास्ते पुलिस मुलाजिम लवप्रीत चीनी का संपर्क आतंकी लंडा हरिके से है। ब्यूरो

15 दिनों में लकवा रोगी हुआ बिल्कुल ठीक

मैं नर्गिस, रायपुर राइयां, नाडाला, कपूरथला —144601 से हूँ। लकवा का बहुत इलाज करवाने के बाद 1 महीने पहले ब्रेन अटैक होने से मेरी टांग, बाज, हाथ और जुबान ने काम करना बन्द कर दिया था पर डा. दरसन को youtube पर सुन कर जब इलाज शुरू

AYURVEDA 90 % तक सुधार आ; गया और अब चल फिर सकती हूँ । मेरे जैसे ठीक हो रहे अनेको रोगियाँ का पते सहित सबसे अधिक डाटा www.drdassans.com और drdassans ayurveda channel (Youtube) पर उपलब्ध है। रोग के कारण और रोग अनुसार परिणाम मिन्न हो सकते है इसीलिए समय रहते 07355793557 पर कॉल या Whalsapp करें। adv.

RAJASTHAN POLICE INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT CORPORATION LTD, JAIPUR
(Government of Rajasthan Undortaking)
CIN NO. 1452970 (22015) (2005)
Regd. Offices, Police Head outer, Lai Kohli, Jaipur(Raj.)
Phone: 014.41-2740744, Fax. 0141-2744294, e-mail: ripide(@rajasthan.gov.in

ई-निविदा सूचना सं0 25/2022-23

निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य/केन्द्र सरकार के अभियांत्रिकी विनामों/उपक्रमों में मकक्ष श्रेणी में पंजीकृत योग्य एवं अनुभवी संवेदकों से नियमानुसार पाँच वर्षों की डीएलपी के न्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में 28 कार्यों के लिए (कम संख्या 01 से 21 तक की निविदा Two Bid System) के तहत आमंत्रित की जाती है।

| निविदा की कुल लागत | रूपये 5866.30 लाख | |
|---|---|--|
| ऑन लाईन निविदा फॉर्म मिलने की तारीख | 30 जनवरी 2023 प्रातः 9.30 बजे से 20 फरवरी, 2023 सायं 4.00 बजे तक | |
| ऑन लाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की तारीख | 20 फरवरी, 2023 सायं 6.00 बजे तक | |
| ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख | 21 फरवरी, 2023 सायं 4.00 बजे | |
| 0 0 0 0 0 | | |

निविदा सम्बन्धित जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in www.sppp.raj.nic.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुव संवेदको को निविदा संबंधित जानकारी प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की ज

| सकती है। भविष्य में निविदाओं में संशोधन ह | प्रेने पर उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रेषित किया जावेगा |
|---|---|
| 1-UBN: RID2223WSOB00266 | 2-UBN: RID2223 WSOB00267 |
| 3- UBN: RID2223 WSOB00268 | 4- UBN: RID2223 WSOB00269 |
| 5- UBN: RID2223 WSOB00270 | 6- UBN: RID2223 WSOB00271 |
| 7- UBN: RID2223 WSOB00272 | 8- UBN: RID2223 WSOB00273 |
| 9- UBN: RID2223 WSOB00274 | 10- UBN: RID2223 WSOB00275 |
| 11- UBN: RID2223 WSOB00276 | 12- UBN: RID2223 WSOB00277 |
| 13- UBN: RID2223 WSOB00278 | 14- UBN: RID2223 WSOB00279 |
| | |

द्वारा सादग्ध भारताथ नागारक का काडयाला तार क नजदाक हिरासत म लिए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार वीरवार रात 11 बजकर 20 मिनट पर बीएसएफ को जिला अंतर्गत सीमा के बीओपी धरमन में कुछ हलचल नजर आई। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने ललकारते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान जीवच राय (35) निवासी लक्ष्मीय (लिहार) के रूप में हुई है। बीएसएफ की ओर से आगे की जांच शुरू कर दी गई है। संवाद

पुलिस में भर्ती का झांसा देने आरोप में दो नामजद गुरदासपुर। थाना सिटी पुलिस ने पंजाब पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी मारने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ केस

लाखा रुपय को ठगा मारन के मामल में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विशास नर्साक्ष निवासी आलोवाल, धाना धारीवाल ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में भती होने का इच्छुक था। आरोपी दिवेदर सिंह और विवेदर सिंह निवासी गली नंबर-1, पुरी कॉलोनी, धाना सिटी फरीदकोट ने उसे पुलिस में भती करने का ओसा देकर 5-70 लाख रुपये ले लिए। पैसे लेने के बावजूद उसे पुलिस में भती नहीं कराया गया। संवाद

हेरोइन समेत बुलेट सवार महिला गिरफ्तार

पठानकोट। पठानकोट के थाना सुजालपुर पुलिस ने 100 ग्राम हेरोइन समेत बुलेट सवार महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान सुजानपुर के मोहल्ला प्रेमनगर निवासी रुखसाना के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार सुजानपुर में के दौरान एक महिला बुलेट मोटर साइकिल पर आती दिखाई दी। पुलिस ने शक के आधार पर उक्त महिला को रोका और लिफाफे की तलाशी लेने पर 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। संवाद

बच्चों के चीखने पर रोका वाहन

चलती स्कूल वैन से गिरी बच्ची



बठिंडा में चलती स्कल वैन से गिरती बच्ची।

संवाद न्यज एजेंसी

बठिंडा। जिले के गांव कोठा गुरु का में शुक्रवार को एक निजी स्कूल की वैन जब बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, इसी दौरान अचानक पिछली खिड़की से एक नन्हीं छात्रा सडक पर गिर गई। गनीमत रही कि पीछे से कोई दूसरा वाहन नहीं आ रहा था जिस कारण छात्रा की जान बच गई। छात्रा के गिरने के बारे में चालक बेखबर रहा और वैन को आगे ले गया। लेकिन छात्रा उठी

और खुद वैन के पीछे भागी। वैन में बैठे बच्चे चिल्लाए तो वालक को पता चला कि कोई

वायरल रहा है। वैन में 10 से ज्यादा बच्चे सवार थे। इस घटना को लेकर लोगों में काफी रोष है, उनका कहना है कि वैन में करीब 7-8 बच्चे बैठ सकते हैं, जबकि ड्राइवर 10 से ज्यादा बच्चे बिठाकर ले जा रहा था। उनका कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, स्कूल प्रबंधकों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

का वीडियो भी सोशल मीडिया पर

गांव वासी जसविंदर सिंह ने कहा कि स्कूल प्रबंधकों को तुंरत वैन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार वाहन आ रहा होता तो छात्रा की जान खतरे में पड़ सकती थी।

बच्ची वैन से गिर गई है। इस घटना गैंगस्टरों के इशारे पर अंबाला की

वह बर्खास्त पुलिस कर्मचारी लवप्रीत चीनी का साथी था, जो मुठभेड़ के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह के पास से जो चार रिवॉल्वर बरामद किए जाए थे। पलिस की एक टीम एमपी

ने बताया कि पुलिस ने तीन देसी

लेकर आते थे हथियार

मामला दर्ज है।

और पुलिस छापेमारी कर रही थी।

PRIMO

प्राईमो केमिकल्स लि. (पूर्व पंजाब अत्कलीज एण्ड केमिकलूस लिमिटेड) सोबाएन: L24119CH1975PLC003607

पंजी. कार्यालयु : एससीओ 125-127, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017

| | 31 दिसंबर, 2022 का समाप्त तिमाहा एवं ना माह हतु के लिए विना आहिट विताय परिणामा का सार (रु. लाखा म) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|
| क्रम सं | | एकल | | | | समेकित | | | | | | | |
| Ħ. | व्योग | तिमाही सम्बप्त 31.12.2022 (बगैर ऑडिट) | तिमाही समाप्त 30,09,2022 (वर्गर ऑडिट) | तिमाही समाप्त 31.12.2021 (बगैर ऑडिट) | नी माह समान 31.12.2022 (बर्गर ऑडिट) | नी माह समाप्त 31.12.2021 (बगैर ऑडिट) | वित वर्ष समान 31.03.2022 (ऑडिटिड) | तिमाही समाप्त 31.12.2022 (बगैर ऑडिट) | तिमाही समाप्त 30,09,2022 (बगैर ऑडिट) | तिमाही समाप्त 31,12,2021 (बगैर ऑडिट) | नी मह समाप्त 31.12.2022 (बगैर ऑडिट) | नी माह समाप्त 31.12.2021 (बगैर ऑडिट) | वित वर्षे सम्बप्त 31.03.2022 (ऑडिटिड) |
| 1 2 3 | अभिरेशन्स से कुल आव (नेट) अन्य आव कल आव | 18,764.29 475.00 19,239.29 | 18,567.00 890.56 19,457.56 | 13,070.09 511.04 13,581.13 | 55,957.72 1,879.86 57,837.58 | 29,299.55 1,028.02 30,327.57 | 45,406.79 1,515.40 46,922.19 | 18,764.29 475.00 19,239.29 | 18,567.00 890.56 19,457.56 | 13,070.09 511.04 13,581.13 | 55,957.72 1,879.86 57,837.58 | 29,299.55 1,028.02 30,327.57 | 45,406.79 1,515.40 46,922.19 |
| 4 | इस अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अनन्य और/या असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व इस अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अनन्य और/या असाधारण | 4,157.97 | 5,577.48 | 5,418.61 | 16,140.41 | 2,234.85 | 7,553.50 | 4,157.97 | 5,577.48 | 5,418.61 | 16,140.41 | 2,234.85 | 7,553.50 |
| 6 | मदों के बाद) कर के बाद इस अवधि हेतु शुद्ध लाध/(हानि) (अनन्य और/या असाधारण | 4,157.97 | 5,577.48 | 5,418.61 | 16,140.41 | 2,234.85 | 7,553.50 | 4,157.97 | 5,577.48 | 5,418.61 | 16,140.41 | 2,234.85 | 7,553.50 |
| 7 | मरों के बाद) इस अवधि हेतु कुल सकल आय (लाभ/हानि) और अन्य सकल आय (टैक्स के बाद) को सम्मिलत कर) | 2,915.00 2,938.77 | 4,051.51 3,969.85 | 4,295.29 4,283.23 | 11,651.32 | 1,457.12 | 5,672.13 5,971.02 | 2,915.00 3,026.79 | 4,051.51 4,095.15 | 4,295.29 4,282.77 | 11,651.32 | 1,457.12 | 5,672.13 6,220.00 |
| 8 | प्रदा इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यु (रु. में) | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.10/- | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.10/- | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.10/- | 4,846.86 Rs.2/- | 4,846.86 Rs.10/- | 4,846.86 Rs.2/- |
| 10 11 | रियेल्यूएरान रिजर्व को छोड़कर रिजर्व कमाई/(नुकसान) प्रति शेयर (रु.) (सालाना नहीं) : | | | | | | 18,960.89 | | 4.70 | | | | 19,209.87 |

pentonic